

## राजभाषा विभाग की सितंबर, 2020 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कुल न 70 निरीक्षण, 53 ई-बैठकें, 136 अन्य बैठकें/वेबिनार किए गए।
- (ii) दिनांक 22 अगस्त 2020 से 14 सितंबर 2020 के दौरान कंठस्थ के माध्यम से अनुवाद ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान कंठस्थ के सेंट्रल सर्वर पर लगभग 3 लाख वाक्यों को जोड़ा गया।
- (iii) "राजभाषा 'भारती पत्रिका' का प्रकाशन हुआ तथा माननीय गृह मंत्री जी द्वारा पत्रिका का विमोचन हिन्दी दिवस पर किया गया।
- (iv) 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना' वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के पुरस्कृत विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा बधाई पत्र भेजे गए।
- (v) 'राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना' वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के हिन्दी भाषी एवं हिन्दीतर भाषी के पुरस्कृत विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा बधाई पत्र भेजे गए।
- (vi) गृह मंत्री जी के हिन्दी दिवस संदेश 2020 की मुद्रित प्रतियाँ भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की गयीं।
- (vii) विभाग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2018-19 की मुद्रित प्रतियाँ गृह राज्य मन्त्री(एन) से अधिप्रमाणित करवाकर लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर रखी गयीं।
- (viii) प्रभारी निदेशक(संस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 14 सितंबर, 2020 को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के अराजपत्रित अधिकारियों की एमएसीपी बैठक का आयोजन किया गया।
- (ix) प्रभारी निदेशक(संस्थान) ने राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव(राजभाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितंबर, 2020 को आयोजित बजट संबंधी बैठक में सहभागिता की।
- (x) अल्पकालीन गहन प्रशिक्षण एकक द्वारा दिनांक 07 सितंबर से 11 सितंबर 2020 को 500वीं एवं 21 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक 501वीं गहन हिन्दी कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया जिसमें क्रमशः 30 एवं 23 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (xi) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, सिकंदरबाद के एक सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2020 को नरकास(केंद्रीय सरकार) बैठक में भाग लिया और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी।
- (xii) हिन्दी भाषा पत्राचार स्कन्ध एवं हिन्दी टंकण/शब्द संसाधन पत्राचार एकक के प्रशिक्षार्थियों हेतु माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्प के माध्यम से देश भर में फैले प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन संपर्क कार्यक्रमों का संचालन किया गया एवं प्रतिभागियों की पाठ्यक्रम से जुड़ी समस्याओं का निपटान किया गया।
- (xiii) उपनिदेशक (पूर्व) हि.शि.यो., कोलकाता द्वारा दिनांक 16 सितंबर, 2020 को नरकास (कार्यालय-2) की ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।
- (xiv) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना के दिल्ली स्थित एवं देशभर में फैले सभी कार्यालयों द्वारा हिन्दी पखवाड़ा-2020 का आयोजन दिनांक 14 सितंबर, 2020 से दिनांक 28 सितंबर, 2020 तक किया गया जिसमें ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्रों का ऑनलाइन वितरण किया गया।
- (xv) विभाग में कुल 58 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (xvi) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के 62 सहायक निदेशकों/तदर्थ उप निदेशकों को नियमित उप निदेशक बनाया गया।

- (xvii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 115 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया ।
- (xviii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा कुल 2,147 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया।

\*\*\*\*\*